

प्रेस नोट थाना राजघाट दिनांक 22-07-2021

राजघाट थानाक्षेत्र के चौकी टीपीनगर अंतर्गत यादव एक्वालाइट एजेन्सी के बगल में निर्माणाधीन मकान में एक व्यक्ति के सिर को ईंट से कूचकर हुई हत्या का आरोपित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बंध में चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी कोतवाली के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राजघाट एवं टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर हर्वटबन्धा तिराहा से वांछित अभियुक्त संदीप चौहान (बेलदार) पुत्र वीरबल चौहान निवासी बाबू लोग का पूरवा रसेत थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर हाल पता हरैया थाना गीडा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 17.07.2021 को चौकी टीपीनगर थाना राजघाट गोरखपुर में यादव एक्वालाइट एजेन्सी के बगल में निर्माणाधीन मकान में अज्ञात व्यक्ति के सिर को ईंट से कूचकर हत्या हुई थी जिसका शव बरामद हुआ था। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि मृतक भूतनाथ पता अज्ञात ने सम्पत पुत्र मकालु निवासी मंझरिया चकिया थाना रामगढताल गोरखपुर हा0मु0 अमरूदमण्डी थाना राजघाट गोरखपुर से पूर्व में 250 रू0 उधार लिया था, उसके द्वारा उधारी वापस न किये जाने पर दोनो अभियुक्त संदीप चौहान व सम्पत उपरोक्त भूतनाथ को घटनास्थल पर लेकर आये व शराब पिलाये व रूपये मांगने पर मृतक के द्वारा रूपये वापस न किये जाने पर सम्पत द्वारा संदीप चौहान उपरोक्त के साथ मिलकर ईंट से कूचकर हत्या कर दी गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना राजघाट पर मु0अ0सं0 168/2021 धारा 302 भादवि पंजीकृत है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजघाट गोरखपुर से विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1- संदीप चौहान (बेलदार) पुत्र वीरबल चौहान निवासी बाबू लोग का पूरवा रसेत थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर हाल पता हरैया थाना गीडा जनपद गोरखपुर उम्र करीब 25 वर्ष

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थान-

दिनांक 22.07.2021 समय 13.30 बजे, गिरफ्तारी का स्थान –हर्वट बंधा तिराहा।

पंजीकृत अभियोग –

1-मु0अ0सं0 168/2021 धारा 302 भादवि थाना राजघाट गोरखपुर ।

गिरफ्तारी टीम में सम्मिलित पुलिस अधि0/कर्मचारी-

- 1-प्र0नि0 श्री विनय कुमार सरोज थाना राजघाट जनपद गोरखपुर ।
- 2- उ0नि0 अनुप कुमार मिश्रा थाना राजघाट जनपद गोरखपुर ।
- 3- हे0का0 तेजनारायण यादव थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
- 3- का0 इम्तियाज अहमद थाना राजघाट जनपद गोरखपुर ।
- 4- का0 जयप्रकाश यादव थाना राजघाट जनपद गोरखपुर ।
- 5- का0 अंगद कुमार राम थाना राजघाट जनपद गोरखपुर ।
- 6-म0का0 मनीषा आनन्द थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।